

दिल्ली सल्तनत भाग-1

तराईन के द्वितीय युद्ध के बाद, मुहम्मद गोरी भारत में अपने विजित प्रदेशों को अपने विश्वनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात गुलाम वंश की नींव रखी।

दिल्ली सल्तनत के राजवंश

वंश	राज्य-काल	प्रमुख शासक
मामलुक या गुलाम वंश	1206 - 1290	कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन
खिलजी वंश	1290 - 1320	अलाउद्दीन खिलजी
तुगलक वंश	1321 - 1413	मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक
सैयद वंश	1414 - 1450	खिज़्र खान
लोदी वंश	1451 - 1526	इब्राहिम लोदी

गुलाम वंश (1206-1290)

वर्ष	शासक	महत्वपूर्ण तथ्य
1206 - 1210	कुतुबुद्दीन ऐबक	<ol style="list-style-type: none">1) मुहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम2) 1210 में चौगान (पोलो) खेलते समय मृत्यु हो गई3) इसे लाख बख्स की उपाधि दी गई थी4) इसने दिल्ली में कुवत-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया5) इसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का भी निर्माण शुरू करवाया


1210 - 1236	इल्तुतमिश	<ol style="list-style-type: none">1) तुर्की विजय के वास्तविक समेकनकर्ता2) इसने मंगोल, चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी3) इसने टंका और जीतल मुद्रा प्रणाली की शुरूआत की थी4) इसने इक्ता प्रणाली - सैनिकों और अमीरों के लिए भूमि अनुदान का आयोजन किया5) इसने चहलगानी प्रणाली को स्थापित किया जिसमें 40 उत्तम सदस्य शामिल थे।6) इसने कुतुबमीनार के निर्माण को पूरा करवाया।
1236 - 1240	रजिया सुल्तान	<ol style="list-style-type: none">1) पहली एवं एकमात्र मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया2) लोकप्रिय शासक होने के बावजूद, वे चहलगानी को नापंसद थी, जो सिंहासन पर एक कठपुतली शासक (उसके इशारों पर नाचने वाला) को बैठाना चाहते थे3) वे डाकुओं के साथ युद्ध में पराजित हुईं और उसकी हत्या कर दी गई
1240-1266	कमजोर शासकों का काल	रजिया की मृत्यु के बाद, सिंहासन पर कमजोर शासक आए, जिन्हें अमीरों का समर्थन प्राप्त था। बहराम शाह, मसूद शाह और नसिरुद्दीन महमूद बाद में सिंहासन पर बैठे थे।
1266 - 1287	बलबन काल	<ol style="list-style-type: none">1) एक मजबूत और केन्द्रीकृत सरकार की स्थापना की गई2) इसने तुर्की अमीरों के विजेता के रूप में काम किया3) इसने साम्राज्य की शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए चहलगानी की ताकत को तोड़ दिया4) इसने सेना की मजबूती के लिए सैन्य विभाग- दीवान-ए-अर्ज़ को स्थापित किया5) इसने कानून और व्यवस्था समस्याओं को बहाल करने के लिए रक्त और लौहनीति (Blood and Iron Policy) को अपनाया6) इसने सिजदा और पैबोस प्रथा पर जोर दिया7) इसने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की

1218 - 1227	चंगेज खान	<ol style="list-style-type: none">1) ये एक मंगोल शासक था जो स्वयं को आतंक कहे जाने में गर्व महसूस करता था2) इसने ख्वारिज़मी साम्राज्य पर आक्रमण किया और संपन्न शहरों को लूट कर बर्बाद कर दिया3) इसके काल में दिल्ली सल्तनत एकमात्र महत्वपूर्ण इस्लामी राज्य बन गया था4) इल्तुतमिश ने 1221 में जलालुद्दीन के एक शरणार्थी निवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिसे चंगेज खान ने हराया था। चंगेज खान सिंधु नदी को पार नहीं कर पाया, जिसने कमजोर सल्तनत को लुटेरों और लूटपाट से बचाया।
-------------	------------------	---

खिलज़ी वंश (1290-1320)

वर्ष	शासक	महत्वपूर्ण तथ्य
1290 - 1296	जलालुद्दीन खिलजी	<ol style="list-style-type: none">1) इसने तुर्की अमीरों के एकाधिकार की जांच की और सहिष्णुता की नीति अपनाई
1296 - 1316	अलाउद्दीन खिलजी	<ol style="list-style-type: none">1) इसने धर्म को राजनीति से अलग किया और कहा की राजधर्म भाई-भतीजा वाद को नहीं पहचानता2) इसने साम्राज्यवादी और संयोजन नीति अपनाई। इसने गुजरात, रणथंबौर, मालवा, मेवाड़ आदि पर कब्जा कर लिया <p>प्रशासनिक सुधार</p> <ol style="list-style-type: none">1) चार फ़र्मानों की श्रृंखला द्वारा अलाउद्दीन ने अमीरों के कारण होने वाली समस्याओं से बचने के लिए कुछ कदम उठाए2) इसने दाग देने - घोड़ों पर चिह्न लगाने और चेहरा प्रणाली सैनिकों के वर्णन की प्रणाली विकसित की3) बाजार व्यवस्था स्थापित करके, अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारित किए4) इसने कुतुब मीनार के प्रवेशद्वार पर अलाई किला और अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया5) इसने हजार खंभों के महल का भी निर्माण करवाया जिसे हजार सुतुन कहा जाता था6) अमीर खुसरो, अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे।

1316 - 1320	मुबारक खान	
1320	खुसरो खान	गाज़ी मलिक ने एक विद्रोह में खुसरो खान को अपदस्थ कर दिया।



byjusexamprep.com